

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 337] नई दिल्ली, शुक्रवार दिसम्बर 31, 1965/पोप 10, 1887
सं० 337] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 31, 1965/ PAUSA 10, 1887

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND SUPPLY

(Department of Industry)

ORDER

New Delhi, the 31st December 1965

S.O. 3992/IDRA/18G/65.—In exercise of the powers conferred by Section 18-G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (85 of 1951) read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Central Government hereby rescinds the Cement Control Order, 1961 with effect from the 1st January, 1966, except as respects things done or omitted to be done under that Order before such rescission.

[No. F. 4-9/65-CEM.II.]

S. RANGANATHAN, Secy.

ERRATUM

Ministry of Food and Agriculture (Department of Food) notification 1965-Sugar, dated 4th December, 1965, published in the Gazette of India Part II, Section 3 (ii), dated 4th December, 1965 (Issue No. 314) No. of the notification may be corrected to read as '3790' instead of '3780'.

(1355)

